

About the Book

This book is specially designed for students preparing for the Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) Class 6 Entrance Examination 2027. It focuses completely on exam-oriented practice through practice sets, prepared strictly as per the latest guidelines of Navodaya Vidyalaya Samiti. The book helps students experience the real exam environment and improve performance in the Mental Ability Test, Arithmetic Test, and Language Test.


Key Features of the Book –

- Contains 20 Practice Sets based on the latest JNV Class 6 exam pattern.
- Each practice set is designed to match the actual difficulty level and structure of the JNV entrance exam.
- Covers all three sections – Mental Ability Test, Arithmetic Test, and Language Test.
- OMR Sheets included to help students practice real exam-style answer marking.
- Includes previous years' paper analytical chart to understand question trends and weightage.
- Helps students improve time management, speed, and accuracy through regular mock practice.
- Ideal for self-assessment and identifying weak areas before the final exam.
- Perfect for students aiming to crack the JNV Class 6 Entrance Exam 2027 with confidence.

This practice set book acts as a complete mock test solution for young aspirants, enabling them to test their preparation level, reduce exam fear, and gain the confidence needed to secure admission to Jawahar Navodaya Vidyalaya (Class 6) successfully.

Other Useful Books



Buy books at great discounts on: www.examcart.in | www.amazon.in/examcart | 

**AGRAWAL
EXAMCART**
Paper Pattern Passage!

CB2367

JAWAHAR NAVODAYA
VIDYALAYA CLASS 6th
Practice Sets

ISBN - 978-93-6890-706-0



₹ 279

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA CLASS 6th Practice Sets

CB2367

AGRAWAL
EXAMCART

CONDUCTED BY NAVODAYA VIDYALAYA SAMITI

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA

Class 6th

Entrance Exam 2027

Paper Pattern

Type of Test	Number of Questions	Marks	Duration
Mental Ability Test	40	50	60 Min.
Arithmetic Test	20	25	30 Min.
Language Test	20	25	30 Min.
Total	80	100	2 Hours

20

(With OMR
Sheets)

Practice Sets

100% Updated! Only Practice Book Updated As Per 2026 Exam Pattern!

Previous
years paper
analytical chart
included



**AGRAWAL
EXAMCART**
Paper Pattern Passage!

Code
CB2367

Price
₹279

Pages
256

ISBN
978-93-6890-706-0

Exam Information

Important Information

- (Complete Information about JNV Entrance Exam and Company Helpline No. given for any problem Related to Book and exam) vi
- Syllabus and Exam Pattern vii
- Information About Jawahar Navodaya Vidyalaya viii
- Analytical Chart xi

Practice Sets With OMR Sheets

➤ Practice Set - 1	1-9
➤ Practice Set - 2	10-18
➤ Practice Set - 3	19-27
➤ Practice Set - 4	28-36
➤ Practice Set - 5	37-45
➤ Practice Set - 6	46-54
➤ Practice Set - 7	55-63
➤ Practice Set - 8	64-72
➤ Practice Set - 9	73-81
➤ Practice Set - 10	82-90
➤ Practice Set - 11	91-99
➤ Practice Set - 12	100-109
➤ Practice Set - 13	110-118
➤ Practice Set - 14	119-127
➤ Practice Set - 15	128-137
➤ Practice Set - 16	138-146
➤ Practice Set - 17	147-155
➤ Practice Set - 18	156-164
➤ Practice Set - 19	165-174
➤ Practice Set - 20	175-184

Solutions

➤ Practice Set 1 to 20	185-244
------------------------------	---------

“

Extra Study Material e-book (Download this Free e-book)

e-book Content :-

✔ Previous Year 5 Papers e-Book

✔ Big Discount Coupon

(Discount coupon given. Use it to get best Discount when you buy our books at 'www.examcart.in')



Link Expire

Download this Extra Study
Material e-book by scanning the
QR Code before Link Expires.


”


Practice Set-1


Reasoning


Direction (Q. No. 1 to 4)

Four figures (A), (B), (C) and (D) have been given in each question. Of these four figures, three figures are similar in some way and one figure is different. Select the figure which is different.

- 

(A) (B) (C) (D)
- 

(A) (B) (C) (D)
- 


(A) (B) (C) (D)
- 

(A) (B) (C) (D)


Direction (Q. No. 5 to 8)

A question figure is given and four answer figures marked (A), (B), (C) and (D) are given. Select the answer figure which is exactly the same as the question figure.


5. Question Figure




Answer Figures




6. Question Figure




Answer Figures



7. Question Figure Answer Figures




Answer Figures



8. Question Figure




Answer Figures




Direction (Q. No. 9 to 12)

There is a question figure, a part of which is missing. Observe the answer figures (A), (B), (C) and (D) and find out the answer figure which, without changing the direction, fits in the missing part of the question figure in order to complete the pattern in the question figure.


9. Question Figure




Answer Figures




10. Question Figure




Answer Figures




11. Question Figure




Answer Figures



12. Question Figure




Answer Figures




Direction (Q. No. 13 to 16)

There are three question figures and the space for the figure is left blank. The question figures are in a series. Find out one figure from among the answer figures given which occupies the blank space for the fourth figure on the left side and completes the series.


13. Question Figures




Answer Figures




14. Question Figures




Answer Figures




15. Question Figures




Answer Figures



16. Question Figures




Answer Figures




Direction (Q. No. 17 to 20)
 There are two sets of two question figures each. The set has an interrogation mark (?). There exists a relationship between the first two question figures. Similar relationship should exist between the third and fourth question figure. Select one of the answer figures which replaces the mark of interrogation.


17. Question Figures




Answer Figures




18. Question Figures




Answer Figures




19. Question Figures




Answer Figures



20. Question Figures




Answer Figures




Direction (Q. No. 21 to 24)
 One part of a geometrical figure (Triangle, Square, Circle) is as question figure and the other one is among the four answer figures (A), (B), (C) and (D). Find the figure that completes the geometrical figure.


21. Question Figure




Answer Figures




22. Question Figure




Answer Figures



23. Question Figure




Answer Figures



24. Question Figure




Answer Figures




Direction (Q. No. 25 to 28)
 There is a question figure and four answer figures marked (A), (B), (C) and (D) are given. Select the answer figure which is exactly the mirror image of the question figure when the mirror is held at XY.


25. Question Figure




Answer Figures




26. Question Figure




Answer Figures




27. Question Figure




Answer Figures



28. Question Figure




Answer Figures




Direction (Q. No. 29 to 32)
 A piece of paper is folded and punched as shown in the question figures and four answer figures marked (A), (B), (C) and (D) are given. Select the answer figure which indicates how the paper will appear when opened (unfolded).


29. Question Figures




Answer Figures




30. Question Figures




Answer Figures




31. Question Figures




Answer Figures



32. Question Figures




Answer Figures




Direction (Q. No. 33 to 36)

A question figure is given and four answer figures marked (A), (B), (C) and (D) are given. Select the answer figure which can be formed from the cut-out pieces given in the question.


33. Question Figure




Answer Figures




34. Question Figure




Answer Figures




35. Question Figure




Answer Figures



36. Question Figure




Answer Figures




Direction (Q. No. 37 to 40)

A question figure is given and four answer figures marked (A), (B), (C) and (D) are given. Select the answer figure in which the question figure is hidden/embedded.


37. Question Figure




Answer Figures




38. Question Figures




Answer Figures




39. Question Figure




Answer Figures



40. Question Figure



Answer Figures



Mathematics

41. The roman numeral of 67 is?
 (A) XLVII (B) LXVII (C) XXVII (D) DXVII
42. All natural numbers and 0 are called as Numbers.
 (A) Rational (B) Integers (C) Whole (D) Prime
43. Sum of place values of the digit 8 is 896.368
 (A) 800.08 (B) 800.008 (C) $\frac{8}{100}$ (D) $8 + \left(\frac{8}{100}\right)$
44. There are XC students in Class 8th. XL students are absent today. How many students are present (in roman numeral)?
 (A) L (B) XL (C) LX (D) X

45. Three bells ring in fixed intervals after 20, 25 and 30 minutes. If they all ring together at 11 : 00 am, then when will they ring again together?

- (A) 3:00 a.m. (B) 3:00 p.m.
 (C) 4:00 a.m. (D) 4:00 p.m.

46. Simplify : $\frac{-(4-6)^2 - 3(-2) + |-6|}{18 - 9 \div 3 \times 5}$

- (A) $\frac{3}{8}$ (B) $\frac{4}{7}$ (C) $\frac{8}{3}$ (D) $\frac{7}{4}$

47. Simplify :

$(0.25 + 0.50 \div 0.25) \times \frac{4}{9}$

- (A) 1 (B) $\frac{9}{4}$ (C) $\frac{4}{9}$ (D) 0

48. Simplify :

$\frac{5}{3} \times \frac{7}{51}$ of $\frac{17}{5} - \frac{1}{3}$
 $\frac{2}{9} \times \frac{5}{7}$ of $\frac{28}{5} - \frac{2}{3}$

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) 4 (C) 2 (D) $\frac{1}{4}$

49. When $\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6}\right)$ is divided by $\left(\frac{2}{5} - \frac{5}{9} + \frac{3}{5} - \frac{7}{18}\right)$, then what will be the result ?

- (A) $5\frac{1}{10}$ (B) $2\frac{1}{18}$ (C) $3\frac{1}{6}$ (D) $3\frac{3}{10}$

50. A fruit seller buys lemons at 2 for a rupee and sells them at 5 for three rupees. So how much was his profit or loss on 100 lemons ?
 (A) 80 (B) 20 (C) 15 (D) 10

51. An article is sold for ₹ 1500 and hence a loss is incurred. Had the article been sold for ₹ 1700, the shopkeeper would have two times the former loss. What is the cost price of the article?

- (A) ₹ 525 (B) ₹ 1722.72
 (C) ₹ 6000 (D) ₹ 1721.28

52. The perimeter of a rectangle is 70 units and its area is 276 sq. units. The length of its longer side is :

- (A) 12 units (B) 18 units
 (C) 23 units (D) 36 units

53. If $\frac{50}{*} = \frac{*}{12\frac{1}{2}}$, then find the value of *

- (A) $\frac{25}{2}$ (B) $\frac{4}{25}$
 (C) 4 (D) 25

54. Find the value of : $3\frac{1}{4} \cdot 3\frac{1}{2} + 2\frac{1}{2} \cdot 2\frac{1}{4}$

- (A) 16 (B) 14
(C) 17 (D) 32

55. Find the value of $5\frac{3}{4} \cdot 8\frac{3}{4} - 3\frac{1}{2} \cdot 5\frac{1}{2} = ?$

- (A) 31.06 (B) 60.31
(C) 13.06 (D) 60.13


56. Gauransh has 290 cards. Tanya has 150 cards. How many cards must Gauransh give to Tanya so that Tanya may have 3 times as many cards as Gauransh ?

- (A) 180 (B) 40
(C) 140 (D) 80

57. If difference between two supplementary angles is 44° , then one of the angle is :

- (A) 68° (B) 65°
(C) 102° (D) 72°

58. In the given figure, $AB \parallel CD$, $\angle ABO = 30^\circ$ and $\angle CDO = 40^\circ$, then exterior angle $\angle BOD = ?$




- (A) 290° (B) 240°
(C) 280° (D) 260°

59. The area of a square and a triangle is same. If the ratio of side of square and height of triangle is $2 : 3$, then the ratio of height of triangle and base of triangle is :

- (A) $2 : 3$ (B) $2 : 5$
(C) $9 : 8$ (D) $9 : 11$

60. In India people speak different languages. Choose the correct option in degrees which represent the number of people speaking Tamil using the information given in the chart



Language	Number of People
(i) Hindi	40
(ii) English	12
(iii) Marathi	9

(iv) Tamil	7
(v) Bengali	4
Total	72
(A) 45°	(B) 35°
(C) 20°	(D) 60°

English

Direction (Q. No. 61 to 80)

There are four passages in this Section. Each passage is followed by five questions. Read each passage carefully and answer the questions that follow. For each question, four passages answers as (A), (B), (C) and (D) are given. Only one out of these is correct.

Passage-1

Jules Verne was a Frenchman who was born in 1828. He was not an inventor and he was not a scientist, but he read a great many books on science. He had very strong imagination and he loved adventures although he did not have many great adventures himself. He wrote a number of electing books about the things which he thought that scientists and inventors would one day be able to do, At that time his stories seemed like fairy tales.

Many of Jules Jerne's attempts to look into the future, however, were surprisingly. One of his look was called 'From Earth to Moon', In this three men and a dog made a journey around his moon they did this in a hollow 'Ship' fired from a gun. After going around the Moon, they returned to earth and splashed down into the sea not far from where the first real Moon travellers landed in July, 1969 about a hundred years later.

Jules Verne's most famous book is 'Twenty Thousand Leagues under the sea'. Jules Verne died in 1905. When he was seventy seven. Many years later, explores really did go it the Moon and one part of the Moon was given Jules Verne's name. Answer the following questions :

61. Who was Jules Vern ?
(A) inventor (B) scientist
(C) writer (D) actor
62. Three men and a dog made a journey around the Moon in a book.
(A) From earth to moon
(B) Around the world in eighty days
(C) Twenty Thousand Leagues under the sea
(D) The mysterious Island
63. Verne's stories were like :
(A) adventure (B) fairy tales
(C) imagination (D) lore story
64. How did the three men and a dog made journey around the moon :
(A) Through a sea (B) Space Ship
(C) In a hollow 'ship' (D) in a car
65. When did the first real Moon travellers landed on Moon ?
(A) 1828 (B) 1905
(C) 1969 (D) 1808

Passage-2

There are wild dogs and pet dogs. Pet dogs are helpers and friends to people. There were no pet dogs 15,000 years ago. Men and women learned how to work with dogs. Dogs helped humans travel from Asia to North America 10,000 years ago by pulling sleds in the snow. People say dogs are "man's best friend." They help with farming. They help with hunting. They help with fishing. They can pull things for people. They can help find things. There are many colors of dogs. There are white dogs, gray dogs, black dogs and brown dogs. A dog's fur can be short or long. Dogs have curly hair or straight fur. There are very small dogs. They are only 6-8 inches tall. There are very big dogs. They are about 3 feet tall. Some dogs can see well. Some dogs do not see very well. All dogs can hear well. They can hear sounds that people cannot hear. They can hear high sounds and low sounds. They can hear sound very far away. All dogs can smell very well. They can smell 40 times better than humans! Dogs live 5 to 13 years, but some dogs live much longer. One dog lived to be 24 years old!

66. Dogs helped people go to America by
- (A) pulling sleds in the snow.
 - (B) helping with farming.
 - (C) helping find things.
 - (D) None of the above
67. How tall are the smallest dogs ?
- (A) 3 inches
 - (B) 5 inches
 - (C) 6 inches
 - (D) 13 inches
68. How tall are the biggest dogs ?
- (A) 1 foot
 - (B) 3 feet
 - (C) 4 feet
 - (D) 5 feet
69. What can all dogs do well ?
- (A) see
 - (B) hear
 - (C) smell
 - (D) Both (B) and (C) are correct
70. How old was the oldest dog ?
- (A) 5 years old
 - (B) 10 years old
 - (C) 13 years old
 - (D) 24 years old

Passage-3

Bees are insects. Bees are special insects because they can fly! They can move through the air like an airplane! Bees can fly because they have wings. They use their wings to fly. Bees can fly fast. Bees can also fly slow. They can fly up and they can fly down. They need to fly to get to the flowers! Bees can have three colours. They can be yellow, red and orange. All bees are black in some places. Bees have three main parts. They have a head. They have a body. And, they have a stinger. The stinger is used to defend against enemies. They also have six legs. They use their legs to stand and climb. They also use their legs to eat and collect pollen. Bees live in many places. They live in Africa, Australia, Asia, Europe, North America, South America. The only continent that bees do not live on is

Antarctica! I understand why they don't live in Antarctica. It's too cold! Most of the time, bees are nice to humans. If you do not bother them, they will not bother you. Have fun watching the bees this summer!

Answer the following questions :

71. What are bees ?
- (A) Mammals
 - (B) Birds
 - (C) Reptiles
 - (D) Insects
72. How do bees fly ?
- (A) They use their legs
 - (B) They use their head
 - (C) They use their wings
 - (D) None of the above.
73. How many legs do bees have ?
- (A) Two
 - (B) Four
 - (C) Six
 - (D) Eight
74. What is the stinger used for?
- (A) To eat food
 - (B) To defend against enemies
 - (C) Both A and B
 - (D) None of the above
75. Where do bees live ?
- (A) North America
 - (B) Asia
 - (C) Antarctica
 - (D) Both A and B

Passage-4

Plants need sunlight and water to make their own food. You can do an experiment to test if this is true. Place a bucket over a patch of green grass. After a few days, lift the bucket. You will see that the grass is not as green anymore. If you leave the bucket in place for a week, the grass will become very dull. This happens because the grass cannot make food in the dark. Remove the bucket. In a few days, the grass will start turning green again.

Answer the following questions :

76. What is the main point of this passage ?
- (A) Buckets are bad.
 - (B) Plants need sunlight.
 - (C) Grass is not pretty when it is dull.
 - (D) None of the above
77. What is an experiment ?
- (A) a way to grow grass
 - (B) a way to test an idea
 - (C) a way to use a bucket
 - (D) none of the above
78. What happens after a few days ?
- (A) The grass turns brown
 - (B) The grass gets very dull
 - (C) The grass is not as green
 - (D) None of the above
79. What is the opposite of dull?
- (A) bright
 - (B) brown
 - (C) sunlight
 - (D) dark
80. According to the passage, how long does it take for the grass to become dull ?
- (A) a month
 - (B) a week
 - (C) a few days
 - (D) none of the above



जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा-20

पृष्ठ-1 SIDE-1

उत्तर-पत्रिका / ANSWER SHEET

नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को केवल नीले/काले बॉल प्वाइंट-पेन से भरें।

FILL IN THE FOLLOWING ENTRIES WITH BLUE/BLACK BALL POINT PEN ONLY

अनुक्रमांक/Roll Number

□	□	□	□	□	□	□
---	---	---	---	---	---	---

अभ्यर्थी का नाम (बड़े अक्षरों में)

NAME OF THE CANDIDATE (IN CAPITAL LETTERS)

--

पिता का नाम (बड़े अक्षरों में)

FATHER'S NAME (IN CAPITAL LETTERS)

--

पृष्ठ-2 पर उत्तर अंकित करने के लिए अनुदेश
INSTRUCTIONS FOR MARKING RESPONSE ON SIDE-2



- केवल नीले/काले बॉल पेन से सही गोले को गहरे निशान से भरिए।
Use Only Blue/Black Ball Point Pen to darken the appropriate circle.
- कृपया पूरे गोले को गहरे निशान से भरिए।
Please darken the complete circle.
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा निशान लगाकर दीजिए जैसा नीचे दिखाया गया है :
Darken ONLY ONE CIRCLE for each, Question as shown below :



- किसी उत्तर के लिए एक बार गोले में निशान लगाने के पश्चात् कोई परिवर्तन अनुमान्य नहीं है।
No Change in the Answer once marked is allowed.
- उत्तर-पत्रिका पर अन्य कहीं कोई निशान न लगाएँ।
Please do not make any stray mark on the OMR Sheet.
- इस ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रिका पर कच्चा काम करना मना है।
Rough work must not be done on the OMR Sheet.
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर, उत्तर-पत्रिका में दिए गए क्रमांक के सामने संगत गोले में निशान लगाकर दीजिए।
Mark your answer only in the appropriate space in the OMR Sheet against the Number corresponding to the question.

उदाहरण :- पृष्ठ-2 को भरने की विधि (केवल नीले/काले बॉल पेन से भरिए)

Example : How to Fill and Mark on Side-2 (With Blue/Black Ball Point Pen Only)

अगर आपका अनुक्रमांक
2712371 है।
If your Roll No. is
2712371

अनुक्रमांक Roll No.						
2	7	1	2	3	7	1
○	○	○	○	○	○	○
①	①	①	①	①	①	①
●	●	●	●	●	●	●
③	③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

अगर आपकी मुख्य प्रश्न पुस्तिका नं.
7642150 है।
If your Main Test Booklet
No. is 7642150

मुख्य प्रश्न पुस्तिका Main Test Booklet No.						
7	6	4	2	1	5	0
○	○	○	○	○	○	○
①	①	①	①	①	①	①
②	②	②	②	②	②	②
③	③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
●	●	●	●	●	●	●
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

अगर आपका राज्य 03, जिला 10,
खण्ड 01, केन्द्र 01 है।
If your State 03, Distt. 10,
Block 01 & Centre 01

State	Distt.	Block	Centre
0	3	1	0
○	○	○	○
①	①	①	①
②	②	②	②
③	●	③	③
④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨

अगर प्रश्न नं. 7 का
उत्तर A है।
If your response to
Q. No. 7 is A

Q. No.	Response
07	● B C D

महत्वपूर्ण (IMPORTANT)

अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें कि मुख्य प्रश्न पुस्तिका में छपा हुआ कोड और उत्तर-पत्रिका के पृष्ठ-2 में छपा हुआ मुख्य पुस्तिका कोड समान हो। अगर ऐसा नहीं है तो तुरन्त कक्षनिरीक्षक को सूचित करें और अपनी मुख्य प्रश्न-पुस्तिका एवं उत्तर पत्रिका बदलवाएँ।

The candidate should check carefully that the Main Booklet Code printed on Side-2 of the OMR Sheet is the same as Printed on Main Test Booklet, In case of discrepancy, the candidate should Immediately report the matter to the invigilator for replacement of both the Main Test Booklet and the OMR Sheet.

↓ कृपया यहाँ से काटे / Please Cut Here ↓

जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा-20__


पृष्ठ-2 SIDE-2

(To be filled by the Candidate)				(To be filled by the Invigilator)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
अनुक्रमांक Roll No.	मुख्य प्रश्न पुस्तिका Main Test Booklet No.	अनुक्रमांक Roll No.	मुख्य प्रश्न पुस्तिका Main Test Booklet No.	State	Distt.	Block																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<table border="1" style="width:100%; height: 100px;"> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr> <tr><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr> <tr><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr> <tr><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td></tr> <tr><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td></tr> <tr><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td></tr> <tr><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td></tr> </table>	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	<table border="1" style="width:100%; height: 100px;"> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr> <tr><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr> <tr><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr> <tr><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td></tr> <tr><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td></tr> <tr><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td></tr> <tr><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td></tr> </table>	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	<table border="1" style="width:100%; height: 100px;"> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr> <tr><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr> <tr><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr> <tr><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td></tr> <tr><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td></tr> <tr><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td></tr> <tr><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td></tr> </table>	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	<table border="1" style="width:100%; height: 100px;"> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr> <tr><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr> <tr><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr> <tr><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td></tr> <tr><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td></tr> <tr><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td></tr> <tr><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td></tr> </table>	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	<table border="1" style="width:100%; height: 100px;"> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr> <tr><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr> <tr><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr> <tr><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td></tr> <tr><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td></tr> <tr><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td></tr> <tr><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td></tr> </table>	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	<table border="1" style="width:100%; height: 100px;"> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr> <tr><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr> <tr><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr> <tr><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td></tr> <tr><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td></tr> <tr><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td></tr> <tr><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td></tr> </table>	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	<table border="1" style="width:100%; height: 100px;"> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr> <tr><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr> <tr><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr> <tr><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td></tr> <tr><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td></tr> <tr><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td></tr> <tr><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td></tr> </table>	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9
0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
2	2	2	2	2	2	2	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
3	3	3	3	3	3	3	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
4	4	4	4	4	4	4	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
5	5	5	5	5	5	5	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
6	6	6	6	6	6	6	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
7	7	7	7	7	7	7	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
8	8	8	8	8	8	8	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
9	9	9	9	9	9	9	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
2	2	2	2	2	2	2	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
3	3	3	3	3	3	3	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
4	4	4	4	4	4	4	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
5	5	5	5	5	5	5	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
6	6	6	6	6	6	6	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
7	7	7	7	7	7	7	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
8	8	8	8	8	8	8	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
9	9	9	9	9	9	9	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
2	2	2	2	2	2	2	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
3	3	3	3	3	3	3	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
4	4	4	4	4	4	4	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
5	5	5	5	5	5	5	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
6	6	6	6	6	6	6	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
7	7	7	7	7	7	7	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
8	8	8	8	8	8	8	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
9	9	9	9	9	9	9	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
2	2	2	2	2	2	2	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
3	3	3	3	3	3	3	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
4	4	4	4	4	4	4	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
5	5	5	5	5	5	5	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
6	6	6	6	6	6	6	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
7	7	7	7	7	7	7	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
8	8	8	8	8	8	8	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
9	9	9	9	9	9	9	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
2	2	2	2	2	2	2	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
3	3	3	3	3	3	3	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
4	4	4	4	4	4	4	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
5	5	5	5	5	5	5	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
6	6	6	6	6	6	6	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
7	7	7	7	7	7	7	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
8	8	8	8	8	8	8	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
9	9	9	9	9	9	9	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
2	2	2	2	2	2	2	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
3	3	3	3	3	3	3	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
4	4	4	4	4	4	4	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
5	5	5	5	5	5	5	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
6	6	6	6	6	6	6	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
7	7	7	7	7	7	7	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
8	8	8	8	8	8	8	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
9	9	9	9	9	9	9	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
2	2	2	2	2	2	2	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
3	3	3	3	3	3	3	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
4	4	4	4	4	4	4	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
5	5	5	5	5	5	5	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
6	6	6	6	6	6	6	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
7	7	7	7	7	7	7	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
8	8	8	8	8	8	8	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
9	9	9	9	9	9	9	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

OMR ANSWER SHEET

उत्तर पत्रिका नं./Answer Sheet No.

280072



मुख्य पुस्तिका कोड
Main booklet Code

A



Q.No.	Response	Q.No.	Response	Q.No.	Response	Q.No.	Response
1	(A) (B) (C) (D)	21	(A) (B) (C) (D)	41	(A) (B) (C) (D)	61	(A) (B) (C) (D)
2	(A) (B) (C) (D)	22	(A) (B) (C) (D)	42	(A) (B) (C) (D)	62	(A) (B) (C) (D)
3	(A) (B) (C) (D)	23	(A) (B) (C) (D)	43	(A) (B) (C) (D)	63	(A) (B) (C) (D)
4	(A) (B) (C) (D)	24	(A) (B) (C) (D)	44	(A) (B) (C) (D)	64	(A) (B) (C) (D)
5	(A) (B) (C) (D)	25	(A) (B) (C) (D)	45	(A) (B) (C) (D)	65	(A) (B) (C) (D)
6	(A) (B) (C) (D)	26	(A) (B) (C) (D)	46	(A) (B) (C) (D)	66	(A) (B) (C) (D)
7	(A) (B) (C) (D)	27	(A) (B) (C) (D)	47	(A) (B) (C) (D)	67	(A) (B) (C) (D)
8	(A) (B) (C) (D)	28	(A) (B) (C) (D)	48	(A) (B) (C) (D)	68	(A) (B) (C) (D)
9	(A) (B) (C) (D)	29	(A) (B) (C) (D)	49	(A) (B) (C) (D)	69	(A) (B) (C) (D)
10	(A) (B) (C) (D)	30	(A) (B) (C) (D)	50	(A) (B) (C) (D)	70	(A) (B) (C) (D)
11	(A) (B) (C) (D)	31	(A) (B) (C) (D)	51	(A) (B) (C) (D)	71	(A) (B) (C) (D)
12	(A) (B) (C) (D)	32	(A) (B) (C) (D)	52	(A) (B) (C) (D)	72	(A) (B) (C) (D)
13	(A) (B) (C) (D)	33	(A) (B) (C) (D)	53	(A) (B) (C) (D)	73	(A) (B) (C) (D)
14	(A) (B) (C) (D)	34	(A) (B) (C) (D)	54	(A) (B) (C) (D)	74	(A) (B) (C) (D)
15	(A) (B) (C) (D)	35	(A) (B) (C) (D)	55	(A) (B) (C) (D)	75	(A) (B) (C) (D)
16	(A) (B) (C) (D)	36	(A) (B) (C) (D)	56	(A) (B) (C) (D)	76	(A) (B) (C) (D)
17	(A) (B) (C) (D)	37	(A) (B) (C) (D)	57	(A) (B) (C) (D)	77	(A) (B) (C) (D)
18	(A) (B) (C) (D)	38	(A) (B) (C) (D)	58	(A) (B) (C) (D)	78	(A) (B) (C) (D)
19	(A) (B) (C) (D)	39	(A) (B) (C) (D)	59	(A) (B) (C) (D)	79	(A) (B) (C) (D)
20	(A) (B) (C) (D)	40	(A) (B) (C) (D)	60	(A) (B) (C) (D)	80	(A) (B) (C) (D)

↑ कृपया यहाँ से काटे / Please Cut Here ↑

<p>Invigilator to Put Centre Stamp in Blue/Black</p>	<p>उत्तर पत्रिका निरीक्षक को सौंपने से पहले उम्मीदवार को यह जाँच करनी चाहिए कि अनुक्रमांक एवं मुख्य प्रश्न पुस्तिका संख्या सही ढंग से भर दिए गए और चिन्हित कर दिए गए हैं। Before handing over the OMR Sheet to the Invigilator, the candidate should check that roll number and main test booklet numbers are filled in and marked correctly.</p>
<p>Signature of Candidate running hand</p>	<p>Signature of Invigilator</p>